

तुरंत रिलीज के लिए

इस वसंत ब्रैम्पटन में लाइव फ्रॉम द रोज़ वर्चुअल परफॉर्मंसिज हो रही हैं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 मार्च, 2021) – घर में ही शानदार कलाकारों के लाइव परफॉर्मंस और मनोरंजन का मजा लें क्योंकि इस वसंत, द रोज़ ब्रैम्पटन (The Rose Brampton) अपनी 15^{वीं} वर्षगांठ के सीजन के साथ, वर्चुअल तौर पर *लाइव फ्रॉम द रोज़ (Live from The Rose)* वापस ला रहा है।

प्रोविंसियल और पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के निर्देशों का पालन करते हुए और कम्युनिटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए द रोज़ (The Rose), वीमियो (Vimeo) के द्वारा दर्शकों के लिए मेनस्टेज परफॉर्मंसिज लाइव प्रसारित कर रहा है। दर्शक, उच्च-गुणवत्ता के प्रोडक्शंस; कुशल टेक्निकल प्रोडक्शन टीम; प्रतिस्पर्धात्मक लाइव कार्यक्रम प्रसारण; और, मनोरंजन में कुछ सबसे अधिक रोमांचक नामों की उम्मीद कर सकते हैं।

होने वाली परफॉर्मंसिज में शामिल हैं:

- 18 मार्च, 2021 (शाम 8:00 बजे EST) – विशेष मेहमान मार्क केलसो (Mark Kelso) के साथ रिवर नॉर्थ डुओ (River North Duo)
- 20 मार्च, 2021 (शाम 8:00 बजे EST) – *दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन (This is Brampton: Live Online)*, क्वैरसिटी (Queeriahcity) द्वारा आयोजित
- 25 मार्च, 2021 (शाम 8:00 बजे EST) – ऐनी-मेरी शेफ्लर (Anne-Marie Scheffler) के साथ सडनली मॉमी (Suddenly Mommy)
- 27 मार्च, 2021 (शाम 7:30 बजे EST) – वर्ल्ड्स इन म्यूजिक (Worlds in Music) (द रोज़ ऑर्केस्ट्रा)
- 28 मार्च, 2021 (दोपहर बाद 1:00 बजे EST) – इयान केटेकु (Ian Keteku) के साथ, एलिज़ाबेथ ग्लेन-कोपलैंड (Elizabeth Glenn-Copeland) की बातचीत
- 1 अप्रैल, 2021 (शाम 8:00 बजे EST) - *दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन*, साउंड्राइव रिकॉर्ड्स (Soundrive Records) द्वारा आयोजित
- 8 से 10 अप्रैल, 2021 (शाम 7:30 बजे EST) – सॉन्ग्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड (Songs for a New World) (ब्रैम्पटन म्यूजिक थिएटर)
- 10 अप्रैल, 2021 (दोपहर बाद 1:00 बजे EST) - सॉन्ग्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड, मैटिन शो (ब्रैम्पटन म्यूजिक थिएटर)

अब तक, *लाइव फ्रॉम द रोज़* के लिए आयोजकों और को-प्रोजेक्शन साझेदारों में इनको शामिल किया गया है: ब्रैम्पटन म्यूजिक थिएटर (Brampton Music Theatre); द रोज़ ऑर्केस्ट्रा (The Rose Orchestra); बी-जैज़ड (B-Jazzed); न्यू थ्योरी रेडियो (New Theory Radio); ऑफ द रिकॉर्ड (Off the Record); साउंड्राइव रिकॉर्ड्स; स्टैंड-अप स्टिचिस (Stand-up Stitches); द फोल्ड (The FOLD) (फेस्टिवल ऑफ लिटरेरी डायवर्सिटी); क्वैरसिटी (Queeriahcity); और अवर वूमैन्स वॉयसेज (Our Women's Voices)। पहले के परफॉर्मंस में शामिल हैं: वर्जीनिया टू वेगस (Virginia to Vegas); क्राउन लैंड्स (Crown Lands); मास्ट्रो फ्रेश वेस (Maestro Fresh

Wes); ट्विन फ्लेम्स (Twin Flames); टाइलर शॉ (Tyler Shaw); रॉन हॉकिन्स (Ron Hawkins); हवाया माइटी (Haviah Mighty); और टोक्यो पुलिस क्लब (Tokyo Police Club), जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के नववर्ष के जश्नों का हिस्सा था।

जब, द रोज़ ब्रैम्पटन, कोविड-19 (COVID-19) के कारण पिछले वर्ष मार्च में बंद हो गया था, तो इस जगह को, *द रोज़ एट होम (The Rose at Home)* के साथ मुफ्त वर्चुअल प्रोग्रामिंग के द्वारा, दर्शकों, विद्यार्थियों और माता-पिता की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया गया था। अप्रैल से अगस्त तक, *दिस इज ब्रैम्पटन: लाइव ऑनलाइन* ने 23 कन्सर्ट बनाए, जिनमें 42 लोकल कलाकारों ने हिस्सा लिया और पूरी दुनिया के 256,000 से अधिक दर्शकों ने इन्हें देखा। द रोज़ ने, हर उम्र के दर्शकों की ज़िंदगियों पर गहरा प्रभाव डालते हुए, सामाजिक प्रभाव और कला पर केंद्रित शैक्षणिक प्रोग्राम भी पेश किए।

द रोज़, *लाइव फ्रॉम द रोज़* के प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, मेरिडियन (Meridian) की बेहद सराहना करता है। लोग, *लाइव फ्रॉम द रोज़* के लिए मुफ्त टिकटें therosebrampton.ca पर बुक कर सकते हैं।

हवाले

“द रोज़ ब्रैम्पटन, लगातार कलाकारों की मदद कर रहा है, मुख्य दर्शकों से जुड़ा हुआ है और अपने ग्लोबल दर्शकों का और भी अधिक विस्तार कर रहा है। अब तक, द रोज़ ने 50 से अधिक कलाकारों को आमदनी के अवसर प्रदान किए हैं, जिनमें से 36 लोकल कलाकार हैं और इसने 15 मुफ्त वर्चुअल प्रेजेंटेशन्स पेश की हैं। हमें अपने निवासियों के लिए, घर में ही सुरक्षित रूप से आनंद लेने हेतु, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्शन पेश करना जारी रखने पर गर्व है!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“*लाइव फ्रॉम द रोज़* दूर तक की कम्युनिटी तक पहुंच गया है। इसने अवसरों के शहर के तौर पर ब्रैम्पटन को ऊंचा उठाया है। कलाकारों को पेशेवर सहायता और आमदनियों वाले प्रकटीकरण प्रदान करके, *लाइव फ्रॉम द रोज़* ने हमारी लोकल कला कम्युनिटी पर, सीधा और सकारात्मक असर डाला है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के द्वारा, 10,000 से अधिक दर्शकों ने, अपने घरों पर ही आराम से और सुरक्षित रूप से, द रोज़ ब्रैम्पटन की परफॉर्मंसिज का आनंद लिया है। 1,700 से अधिक टिकटें बुक होने से और 17 से अधिक देशों के दर्शकों के साथ, *लाइव फ्रॉम द रोज़* लगातार, आकर्षण और रुचि का केंद्र बन रहा है।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“द रोज़, पहुंच योग्यता और कला के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 महामारी के दौरान, दर्शकों को लाइव परफॉर्मंस की खुशी, उम्मीद और गहरे असर की जरूरत है। इस मुश्किल समय के दौरान हमारी कम्युनिटी की सहायता के लिए, द रोज़ ब्रैम्पटन में वर्चुअल परफॉर्मंसिज इस वर्ष मुफ्त हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“द रोज़ लगातार बढ़-फूल रहा है। हमारी वर्चुअल प्रोग्रामिंग और हमारे कलाकारों तथा परफॉर्म करने वाली कला टीम की विशेष कुशलता के साथ, हमने इंडस्ट्री लीडर बनने का रास्ता तैयार कर लिया है। उन्हें लिविंग रूम कॉन्सर्ट्स से लेकर, जो हमारे स्थान के बंद होने के एक सप्ताह बाद शुरू हुए थे, हमारी स्टेज से पेशेवर लाइवस्ट्रीम्स तक, जिन्हें पूरी दुनिया के दर्शकों ने देखा, हमें अब तक के हमारे सीजन पर गर्व है। हम हमारे दर्शकों, हमारे मेयर और सिटी काउंसिलर्स के बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। हमारे पास ब्रैम्पटन और इसके बाहर के लोगों के लिए आनंद लेने हेतु, कई अन्य गतिशील कॉन्सर्ट तैयार हैं।”

- स्टीवन शिप्पर (Steven Schipper), एग्जीक्यूटिव आर्टिस्टिक डायरेक्टर, परफॉर्मिंग आर्ट्स

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

द रोज़ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन का प्रीमियर परफॉर्मिंग कला स्थान और डाउनटाउन के केंद्र की शानदार विशेषता है। यह शहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोकल और दुनिया के प्रसिद्ध परफॉर्मर्स का ठिकाना है, जो ब्रैम्पटन के दर्शकों के लिए एक असाधारण जगह में अवसर प्रदान करता है और बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का शानदार अनुभव पेश करता है। आर्किटेक्चर और आवाज के दृष्टिकोण के साथ शानदार, द रोज़ में ब्रैम्पटन क्रियाशील होता है।

लाइव फ्रॉम द रोज़, थिएटर, म्यूजिक कॉमेडी, पारिवारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बने मल्टी-डिस्प्लनरी प्रोडक्शन्स पेश करता है। द रोज़, जिस कम्युनिटी के लिए सेवा पेश करता है, उसे दर्शाने, विकसित करने और उसका जश्न मनाने के लिए, देश के कलाकारों को उजागर करने और लोकल संगठनों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सक्रिय ढंग से कलात्मक तौर पर शानदार और खास कलाकारों को ढूँढते हैं। हमारा उद्देश्य, परफॉर्म करने वाले कलाकारों के लिए असाधारण अनुभव प्रदान करते हुए, दर्शकों का मनोरंजन करना और उन्हें प्रेरित करना है।

मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca